

5606

4

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(क) रिवर्स मॉर्गेज

(ख) सुकन्या समृद्धि योजना

(ग) सिबिल स्कोर

(घ) म्यूचुअल फंड में बाजार जोखिम

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5606

H

Unique Paper Code : 2416000002

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : Common Prog Group
(UGCF) (SOL)

Semester : IV

Duration : 2 Hours

Maximum Marks : 60

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. All questions carry equal marks.
3. Attempt any **four** questions.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

(5000)

P.T.O.

2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. "All individuals have to be very careful not only in assessing their requirement of finance but also in deciding on the forms in which funds are raised and utilized". In the light of the above statement, highlight the importance and process of financial planning.

“सभी व्यक्तियों को न केवल अपनी वित्त की आवश्यकता का आकलन करने में बल्कि धन जुटाने और उपयोग करने के तरीकों पर निर्णय लेने में भी बहुत सावधान रहना होगा। उपरोक्त कथन के आलोक में वित्तीय नियोजन के महत्व एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए।

2. Explain how the preparation of a personal financial plan can assist in achieving financial goals.

यह बताइये कि व्यक्तिगत वित्तीय योजना की तैयारी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे सहायता कर सकती है।

3. Detail the differences between Credit Card and Debit Card, including typical use cases for each.

प्रत्येक के लिए विशिष्ट उपयोग के मामलों सहित, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच अंतर का ब्यौरा दीजिए।

4. Enumerate the features and benefits of the Kisan Vikas Patra and Monthly Income Scheme by India Post.

इंडिया पोस्ट द्वारा किसान विकास पत्र और मासिक आय योजना की विशेषताएं और लाभ गिनाएं।

5. Define internet banking and describe various methods of digital payments available today.

इंटरनेट बैंकिंग को परिभाषित कीजिए और आज उपलब्ध डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए।

6. Write a short note on any two :

(a) Reverse Mortgage

(b) Sukanya Samriddhi Yojana

(c) CIBIL score

(d) Market Risk in Mutual Funds